



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 06.11.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

विदाई समारोह का आयोजन



निरीक्षक श्री राजित राम यादव, रीडर पुलिस अधीक्षक खीरी के जनपद रायबरेली स्थानान्तरण के अवसर पर आज दिनांक 06.11.2021 को पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल द्वारा पुष्पमाला पहनाकर एवं उपहार देकर नवीन जनपद में सफल कार्यकाल की शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। विदाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें स्वयं के सरकारी वाहन में बिठा कर रवाना किया गया।

विदाई कार्यक्रम के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री अरूण कुमार सिंह; क्षेत्राधिकारी मितौली/लाइन श्री संदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी गोला; श्री संजय नाथ तिवारी, क्षेत्राधिकारी (यू0टी0) आदित्य कुमार गौतम; प्रतिसार निरीक्षक खीरी के साथ-साथ पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं से अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा भी निरीक्षक श्री राजित राम यादव को शुभकामनायें दी गईं।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, नाबालिग से छेड़छाड़ के वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.11.2021 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 455/2021 धारा 354/504/506 IPC व 3(2)(5)A SC/ST ACT व 3(1)(W)(1) SC/ST ACT व 7/8 पास्को अधिनियम में वांछित 01 नफर बाल अपचारी मेहताब अली पुत्र इन्सान अली निवासी ग्राम सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया।

बाल अपचारी का नाम:-

मेहताब अली पुत्र इन्सान अली निवासी ग्राम सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी

पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार चौकी प्रभारी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी
- 2-का0 विनीत कुमार चौकी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी
- 3-का0 राहुल कुमार चौकी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त आकाश उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध तमंचा के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 06.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र हरिओम नि0 मो0 बाजारगंज पुवायां रोड कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

आकाश कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र हरिओम नि0 मो0 बाजारगंज पुवायां रोड कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस

थाना संपूर्णनगर पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 13,850 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना संपूर्णनगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्ते एवं 13,850 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना संपूर्णनगर पर मु0अ0सं0 230/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 3,120 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 08 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्ते एवं 3,120 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना ईसानगर पर मु0अ0सं0 459/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 6,650 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 17 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्ते एवं 6,650 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगांव पर मु0अ0सं0 343/21 व 344/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 2,610 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को 52 अदद ताश के पत्ते एवं 2,610 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मितौली पर मु0अ0सं0 388/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मौके से ताश के पत्ते एवं 6,970 रुपये नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 10 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्ते एवं 6,970 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मैगलगंज पर मु0अ0सं0 516/21 व 517/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा उपमिश्रित शराब एवं उपकरण सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 06.11.2021 को फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सैदीपुर से बेलिहान जाने वाले रोड के पास स्थित नाले के पास बहदग्राम सैदीपुर से अभियुक्त रामजीत पुत्र राधे निवासी ग्राम सैदीपुर 3 नम्बर थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया मे करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 458/2021 धारा 60(2) Ex. Act व 272 IPC पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामजीत पुत्र राधे निवासी ग्राम सैदीपुर 3 नम्बर थाना फूलबेहड़ खीरी

बरामदगी

- 1-एक अदद प्लास्टिक की पिपिया मे करीब 20 लीटर कच्ची शराब
- 2-एक अदद प्लास्टिक की पत्री मे करीब 500 ग्राम यूरिया
- 3-एक प्लास्टिक के ड्रम मे करीब 200/- लीटर लहन
- 4-अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण

पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार चौकी प्रभारी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी
- 2-का0 मनीराम चौकी सुन्दर वल थाना फूलबेहड़ खीरी
- 3-का0 धीरज कुमार चौकी सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ खीरी

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 85 लीटर अवैध शराब सहित 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय टुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **85 लीटर अवैध कच्ची, 02 शराब भट्टी बरामद कर 07 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किया गया।

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गोला	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना फूलबेहड़	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना नीमगांव	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना ईसानगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना पलिया	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	85 लीटर	07 अभियुक्त गिरफ्तार